

The BSE Ltd.
BSE's Corporate Relationship Department 1st Floor, New Trading Ring,
Rotunda Building, P.J. Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai 400 001

KAMA/SEC/ 2024 14th February,2024

Dear Sir,

Sub: Newspaper Clippings of Un-Audited financial Results for the quarter and nine months ended

December 31, 2023 – KAMA Holdings Limited

In Compliance with Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 please find attached herewith copies of Un-Audited Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2023, published in The Pioneer (English) and The Pioneer (Hindi) newspaper. Copies of said advertisement are also available on the website of the Company at www.kamaholdings.com

Request to kindly take this intimation on record.

Thanking you,

Yours faithfully, For **KAMA HOLDINGS LIMITED**

Ekta Maheshwari Whole-time Director, CFO & Company Secretary

Encl: A/a

KAMA Holdings Limited

Block-C, Sector-45 Gurgaon 122 003 Haryana, India Tel: +91-124-4354400 Fax: +91-124-4354500 Email: info@kamaholdings.com Website: www.kamaholdings.com

Regd. Office: Jnit No. 236 & 237, 2nd Floor DLF Galleria, Mayur Palace Mayur Vihar Phase-1 Extension Delhi 110091

अवैध निर्माण करने वालों को नहीं मिलेगा बिजली का कनेक्शन

🔵 ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया फैसला

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

ग्रेटर नोएडा में अवैध निर्माण रोकने के लिए प्राधिकरण ने कमर कस ली है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार की अध्यक्षता में प्राधिकरण में बैठक हुई, जिसमें डीएम मनीष वर्मा सहित जिला प्रशासन, एनपीसीएल, यूपीपीसीएल महकमों और पुलिस अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण अधिसचित एरिया में अवैध निर्माण करने पर विद्युत कनेक्शन न देने का जाएगा। इसके साथ ही विद्युत निर्णय लिया गया। कनेक्शन के लिए आवेदनों को अधिसूचित एरिया में अवैध एनपीसीएल/यूपीपीसीएल

निर्माण को रोकने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहे हैं। प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार के निर्देश पर अभियान चलाकर अवैध निर्माण को तोडा जा रहा है। प्राधिकरण की टीम रोजाना अलग.अलग जगहों पर जाकर अवैध निर्माण को ढहाने के साथ

आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के अंतर्गत है।

क्र. कर्जदार/ सह-कर्जदार का

पंकज बहगुणा/

दिनांक : फरवरी 14, 2024 स्थान : दिल्ली/एनसीआर

B

अवधि हेतु शुद्ध लाभ∕(हानि) (कर पूर्व आपवादिक और/या असाधारण मद)

कर पूर्व अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि)

(आपवादिक और /या असाधारण मद पश्च

कर पश्चात् अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि)

(आपवादिक और/या असाधारण मद पश्चात

अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु लाभ/(हानि) (कर पश्चात्) और अन्य कुल

रिजर्व (पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को छोड़कर) जैसा कि पृष्ठले वर्ष लेखापरीक्षित तुलन पत्र

व्यापक आर्य (कर पश्चात्) शामिल]

प्रति शेयर आय (प्रत्येक 10 रुपये का)

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 12.02.2024

नाम / ऋण खाता क्र

अतिऋमण के खिलाफ कार्रवाई को और प्रभावी बनाने के लिए सीईओ की पहल पर सोमवार को प्राधिकरण में बैठक हुई। इस बैठक में डीएम मनीष वर्मा सहित जिला प्रशासन, एनपीसीएल, यूपीपीसीएल और पुलिस महकमों के कई अधिकारीगण शामिल हुए, जिसमें निर्णय लिया गया कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिसचित एरिया में अवैध निर्माण करने पर विद्युत कनेक्शन नहीं दिया

नोएडा प्राधिकरण को भेजेंगे। प्राधिकरण से एनओसी दिए पर विद्युत कनेक्शन मिलेगा। विद्युत कनेक्शन के आवेदनों पर निर्णय लेने के लिए हर शुक्रवार को शाम चार बजे ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में संयुक्त समिति की बैठक होगी, जिसमें प्राधिकरण के संबंधित अधिकारी साथ ही एनपीसीएल/यूपीपीसीएल संबंधित एसडीएम व एसीपी शामिल होंगे।

अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ

पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित कर्ज़दारों को माँग सूचनाएँ निर्गमित की थीं, जिसमें उत्त

कर्जदार/सह-कर्जदार/जमानतदार राशि का प्रतिसुगतान करने में विफल रहे हैं, अतएव एतद् द्वारा कर्जदार तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरदाता द्वारा सांकेतिक अधिग्रहण किया गया है जो कि उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत नियम 8 मे

दर्शाया गया है। संपत्ति तथा अधिग्रहण की तिथि नीचे दर्शाई गई है। एतद द्वारा विशेष रूप से कर्जदार एवं जनसाधारण को संपत्ति के संव्यवहार नहीं करने के लिए सचेत किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी संव्यवहार इसमें वर्णित राशि तथा उस पर आगे ब्याज हेतु

संपत्ति का विवरण

सांकेतिक कब्ज़े की तिथि

यूनिट नंबर-एच3-504, 5वीं मंजिल, टॉवर-एच3, एल्डिके हिलसाइड, निक (एम), नीमराना, प्लॉट नंबर जीएच-12-

उपरोक्त दर्शाए गए कर्ज़दार/सह-कर्ज़दार एवं ज़मानतदारों को सूचित किया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन से 30 दिनों के अंदर

राशि का भुगतान करें, अन्यथा 30 दिनों की समाप्ति के पश्चात् अधिग्रहित संपत्ति की नीलामी कर दी जाएगी जो पूर्णतः नियम 8 और 9

3137.80

136.37

136.37

102.55

102.67

1992.35

0.81

उपरोक्त वित्तीय परिणामों की समीक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई है और 12 फरवरी. 2024 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड पर लिया गया है।

उपरोक्त सेवी (लिस्टिंग और अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 के विनियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दायर किए गए त्रैमासिक और अर्थवार्षिक

वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक सारांश है। त्रैमासिक वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com पर उपलब्ध है।

200.84

150.27

1.19

रुंगटा इरीगेशन लिमिटेड

सीआईएन: I 74899DI 1986PI C023934

तिमाही और नौ महीनों के लिए स्टैंडअलोन अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का

4344.05

198.12

198.12

148.26

1.67

–40453330,31,32, ई–मेलः cs@rungtairrigation.in, वेबसाइटः www.rungtairrigation.ir

31.12.2023 30.09.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.03.2023

601.76

450.87

1992.35

263.85

263.85

197.38

885.61

238, अलवर- 301001/ फरवरी 12, 2024

सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर सूचना में वर्णित राशिँका प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

खाली प्लाट में बने सेफ्टी टैंक में गिरा बच्चा. मौत

गाजियाबाद। गाजियाबाद के थाना इंदिरापुरम इलाके में एक खाली प्लॉट में बने सेफ्टी टैंक में 3 साल का बच्चा डूब गया। सेफ्टी टैंक के बराबर में टॉयलेट है जहां बच्चे की मां गई थी। मां के पीछे-पीछे जाता बच्चा सेफ्टी टैंक में डूब गया। जब बच्चे को तलाश करना शुरू किया तो कई घंटे बाद बच्चे का शव सेफ्टी टैंक में मिला।

गाजियाबाद में 3 साल का अंशु अपनी मां के साथ थाना इंदिरापुरम के मकनपुर इलाके में रहता है। अंशु की दादी मीरा ने बताया कि जहां यह परिवार रहता है वही खाली प्लॉट में सेफ्टी टैंक बना हुआ है।

यही समिति उन आवेदनों पर बैठक

करेगी। इसके साथ ही जहां भी अवैध

निर्माण हुए हैं उन एरिया को चिंहित

कर उनके खिलाफ नियमित रूप से

कार्रवाई करने के लिए अभियान

सुविधा प्रदान करने के लिए जल्द ही

तरह काम करेगा। इसी पोर्टल पर

उपभोक्ता ऑनलाइन आवेदन कर

सकेंगे। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के

सीईओ एनजी रवि कुमार ने अपील

की है कि कालोनाइजरों और भूमाफि

याओं के बहकावे में आकर अपनी गाढी कमाई न फंसाएं। अधिसूचित

एरिया में किसी भी निर्माण को बख्शा

नहीं जाएगा। इस बैठक में एसीईओ

मेधा रूपम, एसीईओ अन्नपूर्णा गर्ग,

एसीईओ सुनील कुमार सिंह

ओएसडी हिमांशु वर्मा, ओएसडी विशु राजा, एनपीसीएल के जीएम

सारनाथ गांगुली समेत अलग.अलग

डिमांड नोटिस की तिथि / शाखा का

प्राधिकृत अधिकारी आईसीआईसीआई बैंक लि.

नाम

400.91

400.91

298.32

1659.52

कृते रूंगटा इरिगेशन लिमिटेः

श्रुति रूगटा कार्यकारी निदेशक

डिमांड नोटिस में राशि (रु.)

जुलाई 31, 2023

एक पोर्टल बनाया जाएगा।

जाएगा। आवेदकों को

यह सिंगल विंडो सिस्टम की

अंशु की मां टॉयलेट गई तो उसके पींछे-पीछे अंशु भी चला गया। अंशु सेफ्टी टैंक में डूब गया। अंशु की मां जब टॉयलेट से आई तो उसे जब कहीं अंशु दिखाई नहीं दिया तो उसकी खोजबीन शुरू की गई। कई घंटे की खोजबीन के बाद लोगों का ध्यान सेफ्टी टैंक की तरफगया। जब सेफ्टी टैंक को देखा गया तो उसमें अंशु का पैर दिखाई दिया।

नोएडा में 30 करोड़ रुपये की जमीन को कब्जा मुक्त कराया

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

नोएडा के सेक्टर-138 स्थित इला बांस गांव में प्राधिकरण ने जेसीबी चलाया। यहां 5000 वर्गमीटर से ज्यादा जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। इस जमीन की लागत करीब 30 करोड रुपए आंकी जा रही है।

नंबर.215, 216, 413, 414 और 415 जमीन पर कब्जा किया और अवैध रूप से प्लाटिंग की। प्लाट को बेचा गया। अवैध निर्माण ध्वस्तीकरण के समय कब्जा वाले कलोनाइज़र फ रार हो गए। जिनको चिह्नित किया जा रहा है। इनके खिलाफ कानुनी एक्शन लिया जाएगा। प्राधिकरण ने एडवाइजरी की इस तरह से किसी कलोनाइजर के फेर में नहीं फंसे। प्राधिकरण को जानकारी मिली थी कि नोएडा के इला बांस गांव में बड़े स्तर पर अवैध प्लाटिंग की जा रही है। इसके बाद

🗕 प्राधिकरण की जमीन पर हो रही थी अवैध प्लाटिंग

साथ मौके पर पहुंची। करीब दो से

तीन घंटे तक चले अभियान में यहां कलोनाइज्र ने गांव के खसरा बनाए गए प्लाट, निर्माण और कब्जा की जमीन को मुक्त कराया गया। इस जमीन पर प्राधिकरण ने अपना बोर्ड लगाया साथ से फेंसिंग कराकर अपने कब्जे में लिया। दरअसल ये जमीन मास्टर प्लान 2031 के अनुसार नियोजित की गई है। इसलिए जमीन को अतिऋमण मुक्त कराया गया। प्राधिकरण अधिकारियों ने बताया कि कब्जा करने वाले नोएडा या आसपास के नहीं है। बल्कि ये बाहरी है। इन लोगों यहां अवैध निर्माण और कब्जा कर प्लाटिंग की। यही नहीं कई लोगों को सस्ती जमीन का लालच देकर बेचा भी है। इनका पता लगाने का प्राधिकरण पुलिस और जेसीबी के प्रयास किया जा रहा है।

संक्षिप्त समाचार



नोएडा में आयोजित ग्रैंड मैराथन में शामिल प्रतिभागी

ग्रैंड मैराथन में 3०० से अधिक लोग दौडे

नोएडा। नोएडा में मंगलवार को ग्रैंड मैराथन का आयोजन किया गया। इस 8वें संस्करण में 3000 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और बेहतर फिटनेस का संदेश दिया। इस मैराथन का आयोजन सीआरसी समूह के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम के महोत्सव के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश ट्रैफिक पुलिस, पीकू स्पोर्ट्स के सहयोग से किया गया। मैराथन के दूसरे दिन नोएडा के डीसीपी राम बदन सिंह ने 10 किलोमीटर की दौड़ को हरी झंडी दिखाकर मैराथन की शुरुआत की। वहीं सीआरसी समृह के संस्थापक और सीएमडी सतीश गर्ग ने सीआरसी समूह के निदेशक सलिल कुमार के साथ 21.1 किलोमीटर की हाफ मैराथन को हरी झंडी दिखाई।

दसवीं के छात्र ने फांसी लगाकर दी जान

नोएडा। थाना ईकोटेक-3 क्षेत्र के जलपरा गांव में एक दसवीं कक्षा के छात्र ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। मूल रूप से उत्तराखंड निवासी राजेश कुमार अपने परिजनों के साथ जलपुरा गांव में किराए पर रह रहे हैं। सोमवार को वह ड्यूटी पर चले गए घर पर उनका 16 वर्षीय बेटा मनोज काल्पनिक नाम व उनकी पत्नी थे। किसी कार्य से राजेश क्मार की पत्नी घर से बाहर चली गई कुछ समय बाद जब वापस लौटी तो उन्हें मनोज फ ांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। उन्होंने पडोसी की मदद से उसे फंदे से नीचे उतारा लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची थाना ईकोटेक 3 पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। थाना प्रभारी का कहना है कि मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है प्रारंभिक जांच पता चला है कि मनोज पिछले कुछ समय से मानसिक रूप से परेशान चल रहा था।

पीजी में लटका मिला युवक का शव

नोएडा। थाना सेक्टर-39 क्षेत्र के हाजीपुर गांव में पी जी चलाने वाले एक युवक का शव कमरे में लटका हुआ मिला। युवक के पार्टनर इसे आत्महत्या बता रहे हैं। वहीं परिजनों का आरोप है कि उसकी हत्या की गई है परिजन उसके पार्टनरों पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। ग्राम चिरोडी निवासी दीपक बैंसला अपने दो साथियों के साथ मिलकर हाजीपुर गांव में पी जी चला रहा था। सोमवार को दीपक बैंसला पीजी के एक कमरे में फ ांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। सूचना थाना सेक्टर 39 पुलिस को दी मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया।

परीक्षा सेंटरों पर नहीं लगे

सीसीटीवी तो प्रिंसिपल

पर होगी कार्रवाई

नोएडा। नकल विहीन तथा पारदर्शी

तरीके से यूपी बोर्ड की हाईस्कूल व

इंटरमीडिएट परीक्षा कराने के लिए

प्रदेश सरकार सख्त है। कल 14 फ

रवरी तक परीक्षा केन्द्रों पर विजिबल

सीसीटीवी/डीवीआर न लगाने वाले

परीक्षा केंद्रों तथा वहां के प्रिंसिपल पर

दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी तथा 3

वर्ष तक परीक्षा केन्द्र प्रतिबंधित

इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं की शरुआत होने जा रही है जो कि 9

उल्लेखनीय है कि प्रदेश भर में 22 फरवरी से हाईस्कूल और

माध्यमिक शिक्षा परिषद के

सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने बताया कि

वर्ष 2024 की हाईस्कूल एवं

इण्टरमीडिएट परीक्षाओं के परीक्षा

केंद्रों की परिषद कार्यालय में स्थापित

कमांड एंड कंट्रोल रूम से ऑनलाइन

परिषद के कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है। इसमें गौतमबुद्धनगर कई जनपदों

में कुछ ऐसे परीक्षा केंद्र चिन्हित हुए

हैं जिनके स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी

कैमरे डीवीआर कंट्रोल रूम से

परीक्षा केंद्रों के स्ट्रांग रूम को

मॉनिटरिंग किया जाना है।

विजीबल नहीं है।

घोषित किया जाएगा।

मार्च तक चर्लगी।

बाइक पर जा रहे दंपति को कार ने कुचला

🔵 दोनों की मौत, बच्ची घायल

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

अलग-अलग स्थानों पर बेलगाम वाहनों की चपेट में आने से पति-पत्नी सहित चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई।

हादसों के बाद दुर्घटना के आरोपी वाहन चालक मौके से फरार हो गए हैं। ग्राम भंगेल निवासी रंजन कुमार सिंह अपनी पत्नी रूबी कुमारी व बेटी मिल्की के साथ बाइक से जा रहे थे। सेक्टर 31/25 के चौराहे पर बीती रात्रि तेज गित में आ रही एक आई–10 कार ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि रंजन कुमार ने मौके पर ही दम तोड दिया। जबिक उनकी पत्नी रूबी कुमारी और मिल्की गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। हादसे की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची थाना सेक्टर-24 पुलिस ने घायल रूबी व मिल्की को सेक्टर-71 स्थित कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया।

रूबी कुमारी की भी मौत हो गई। जबकि मिल्की की हालत गंभीर बनी हुई है। इस संबंध में मृतक के बेटे अतुल कुमार सिंह ने अज्ञात कार चालक के खिलाफथाना सेक्टर-24 में मकदमा दर्ज कराया है। थाना प्रभारी का कहना है कि कार नंबर के आधार पर आरोपी चालक की तलाश की जा रही है।

थाना बादलपुर क्षेत्र के जीटी रोड पर अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर स्थिति में पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया जहां चिकित्सकों से मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान हरदोई निवासी रजनीश पुत्र अनिल के रूप में हुई।

शुद्धिपत्र मैसर्स सुपीरियर फिनलीज

लिमिटेड के यूएफआर विज्ञापन में, जो 13-02-2024 को प्रकाशित हुआ, के संदर्भ में बिंदु 8 को प्रति शेयर आय (प्रति रु. 10 / – का) के स्थान पर "प्रति शेयर आय (रु. 1/- का)" के रूप में पढ़ा जाऐ। इस अस्विधा के लिए खेद है।

Be known to all that my client Mohd. Shakeel S/o Mohd. Zalud R/o 1718, Hauz Suiwalan, from all his movable and immovable

कैमक कमर्शियल कंपनी लिमिटेड

रजि. कार्यालयः प्रथम तल, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002 कॉर्पोरेट पहचान सं. L70109DL1980PLC169318

- 7303495374, ई-मेल-camaccommercial@gmail.com वेबसाइट - www.camaccommercial.com

31 दिसंबर, 2023 को समाप्त तिमाही और नौ महीनों हेतु अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश (प्रति शेयर डेटा को छोड़कर लाख रुपये में

		तिमाही	नौ माह	तिमाही	वर्ष
豖.	_	समाप्ति	समाप्ति	समाप्ति	समाप्ति
सं.	विवरण	दिसम्बर	दिसम्बर	दिसम्बर	मार्च
		31, 2023	31, 2023	31, 2022	31, 2023
		(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित
1.	संचालनों से कुल आय	167.23	271.83	45.97	343.41
2.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि)				
	(कर पूर्व और आपवादिक मद)	130.59	91.99	17.39	140.65
3.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि)				
	(कर पूर्व और आपवादिक मद)	130.59	91.99	17.39	(329.45)
4.	कर पश्चात् अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि)				
	और आपवादिक मदे	115.78	77.92	17.47	(329.25)
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि				
	हेतु लाभ / (हॉनि) (कर पश्चात्) और				
	अन्य कुल व्यापक आय (कर पश्चात्)				
	शामिल]	(2,704.81)	(3,755.75)	2,151.22	14,976.80
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	88.28	88.28	88.28	88.28
7.	अन्य इक्विटी				1,73,162.50
8.	प्रत्येक 10 रुपये के प्रति शेयर आय				
	(क) मूलभूत (रु. में)	13.12	8.83	1.98	(37.30
	(ख) तरलीकृत (ह. में)	13.12	8.83	1.98	(37.30

टिप्पणियाँ

1. उपरोक्त वित्तीय परिणामों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई है और 13 फरवरी, 2024 को आयोजित

उनकी संबंधित बैठकों में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित और रिकॉर्ड पर लिया गया है। 2 उपरोक्त 31 दिसंबर, 2023 को समाप्त तिमाही और नौ महीनों के लिए सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण

वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक सारांश है। कंपनी के वित्तीय परिणामों का पूरा प्रारूप कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसे 13 फरवरी, 2024 को कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड को भी भेजा गया है। बोर्ड के आदेश द्वारा

आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दायर किए गए अलेखापरीक्षित

स्थानः नई दिल्ली तिथिः 13 फरवरी, 2024

माई मनी सिक्योरिटीज लिमिटेड ार पा। तिपपारिटाज । लानटड CIN: L67120DL1992PLC047890 पंजीकृत कार्यालयः 10 ए. अंडरहिल लेन. सिविल लाइस, दिल्ली–54

ई मेल आई डी : mymoneyviews@outlook.com, फोन नं. : 011-23937870, 23930655 31 दिसम्बर, 2023 को समाप्त तिमाही एवं नौ महीने के लिए एकल अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम 31.12,2022 (4.79) 40.49 60.3 103.3 (4.04) कर पश्चात अवधि के लिए शुद्ध लाम/(हानि) (विशिष्ट और/या असाधारण म 31.98 47.3 (47.79) 81.20 (4.04) अवधि हेर्नु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु निहिर लाभ / हानि (कर के बाद)] (47.79) इक्विटी शेयर कैपिटत प्रति शेयर अर्जन (रु 10 / – प्रत्येक के) (अव्वधि के लिए-वार्षिकी

्रक्सचेवेजा के पास द्वारण किया गया प्राप्ताहण नामाल है। गैमाहिक / वार्षिक वित्तीय परिणामी का पूर्ण स्टॉक एक्सचेज वेबसाइट्स (www.bseindia.com) आ कम्पनी की वेबसाइट्स www.mymoneyviews.com पर उपलब्ध हैं। कृते व निदेशक मंडल की ओस्ट हैं जनता /

स्थान : दिल्ली दिनांक : 13.02.2024

हस्ता /— संजय सेट पूर्वकालिन निर्देशक डीआईएन : 00350518

रोटोग्राफिक्स (इंडिया) लिमिटेड CIN: L74899DL1976PLC008036 पंजी. कार्या : युनिट नं. ८, ग्राउंड फ्लोर पॉकेट-एम, सरिता विहार, नई दिल्ली 110076

रजा. कार्या : सूर्याप : १, ४, ४४०० वर्षाय संकट-पर, ताराया स्वरार, पञ्च स्वरणा Tubrov 011—4736660, ईमेल आईडी : info@rotoindia.co.in, वेबसाइड : www.rotoindia.co.i 31 दिसम्बर, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए अनंकंक्षित वित्तीय परिणामों का सार

वेद	रण	समाप्त		पूर्व वर्ष समाप्त
		तिमाही	के आंकडे	तत्स्थानीय ३ महीने
		(31.12.2023)		
नी	चे टिप्पणी देखें)	(अनंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)
1.	परिचालनों से कुल आय	1.27	42.03	1.27
	अवधि के लिये शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, विशिष्ट एवं / अथवा असाधारण मदों से पूर्व*)	(1.55)	(2.72)	(1.46)
3.	कर से पूर्व अवधि के लिये शुद्ध लाभ / (हानि) (विशिष्ट एवं / अथवा असाधारण मदों के बाद*)	(1.55)	(2.72)	(1.46)
1.	कर से बाद अवधि के लिये लाभ / (हानि) (विशिष्ट एवं / अथवा असाधारण मदों के बाद)	(1.55)	(2.72)	(1.46)
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु कर के बाद) लाभ/हानि एवं व्यापक आय (कर के बाद) से शामिल)	(1.55)	(2.72)	(1.46)
3 .	इक्विटी शेयर पूंजी	360.13	360.13	360.13
7.	आरक्षित (पूर्व वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र के अनुसार पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त आरक्षित	0.00	0.00	0.00
3.	आय प्रति शेयर (रु 10 / – प्रति का) (जारी तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिए)			
	1. मूल	-0.04	-0.08	-0.04
	2. বংল	-0.04	-0.08	-0.04

जपरोक्त विवरण सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के पास दाखिल की गई तिमाही वित्तीय परिणामों के सम्पूर्ण विवरण प्रारुप का सार है। तिमाही वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारुप स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट www.bseindia.com तथा कम्पनी की वेबसाइट www.rotoindia.co.in. पर उपलब्ध है।

. वित्तीय परिणाम कंपनी (भारतीय लेखा मानक) (संशोधन) नियम, 2016 द्वारा संशोधित कंपनी (भारती लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एएस) के अनुसार तैयार किए गए

3. उपरोक्त अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई और 12.02.2024 के आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया।

हस्ता/— नाम : मनीष कुमार कोरी पदनाम : निदेशक डीआईएन : 10426839 Public Notice

Public Notice

This is to inform the general public that M/s Raj industries through its prop. Mr. Ajeet Kumar Singh is the sole owner of Property bearing 10. 40, area measuring 20.80 ac, mtrs., situated in Block B of Sector 8, MOIDA, Distt. Gautam Budh Nagar MOIDA. This ownership was legally acquired through a Transfer Cum Sale Deed dated 07.04.202 vided doc no. 1956, executed by Mrs SS Engineering works.

The above said owners have misplaced the Original Transfer cum Sale Deed dated 12-02-2007 Doc. No. 722 executed by Mr. Dev Raf Pahuja in favour of Mrs Alok Udyog. Anyone who finds the above-mentioned documents, kindly handover the same to the Manager of HDPC Bank Ltd. Moti Nagar. Mrs Raj industries through its prop. Mr. Ajeet Kumar Singh is currently in the process of mortgaging the aforementioned property with HDPC Bank Ltd. Any objections or concerns regarding this transaction should be raised within a period of 7 days from the date of this public notice. Any objections submitted after the completion of this 7-day period will not be considered binding with respect to the said property or the interests of our cilent. If anyone wishes to raise an objection, please do so within the stipulated 7-day period by contacting Law Veritas: North (Advocates & Legal Consultants) at Office No. 11, 1st Floor, Building No. A-444A, Sector-16, Notida, Uttar Pradesh-201301; Landline(s): +910120-3101683/4562809; e-mail: accounts@ivnorth.in

सीआईएन: L92199DL2000PLC104779

कामा होल्डिंग्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः द गैलेरिया, डीएलएफ मयूर विहार, यूनिट नं. 236 और 237, दूसरी मंजिल, मयूर प्लेस, नोएडा लिंक रोड, मयूर विहार फेज । एक्सटेंशन, दिल्ली – 110091

कॉर्पोरेट कार्यालयः ब्लॉक सी, सेक्टर 45, गुड़गांव—122003, दूरभाष नं. (+91—11) 49482870 • फैक्सः (+91—11) 49482900

ईमेलः info@kamaholdings.com; वेबसाइट: www.kamaholdings.com

दिनांक 31.12.2023 को समाप्त तिमाही और नौ माह हेतु

अलेखापरीक्षित स्टैंडअलोन एवं समेकित वित्तीय परिणामों का सारांश

समेकित तिमाही समाप्ति तिमाही समाप्ति नौ माह समाप्ति नौ माह समाप्ति 31.12.23 31.12.23 31.12.22 31.12.23 विवरण 31.12.22 31.12.22 31.12.22 अलेखापरीक्षित अलेखापरीक्षित (6)1 संचालनों से कुल आय 849.42 6237.32 20035.89 307583.45 350322.71 964460.92 1130647.08 6.97 126494.83 | 226065.67 2 कर पूर्व अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) 709.61 (29.01)6056.65 19962.28 35356.76 64802.67 (20.57)175865.86 कर पश्चात् अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) 530.89 5852.94 19523.30 25464.38 52447.74 91603.99 (20.49)अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु 530.87 5852.39 19523.06 35729.00 63252.45 106068.99 154715.07 लाभ∠(हानि) (कर पश्चात्) और अन्य कुॅल व्यापक आय (कर पश्चात्) शामिल] प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी 3209.06 645.26 3209.06 645.26 3209.06 645.26 3209.06 645.26 प्रिति शेयर आय (प्रत्येक 10 रुपये का) 1.65 300.84 (0.06)18.24 60.77 40.25 84.51 144.50 (ख) तरलीकृतः 1.65 (0.06)18.24 60.77 40.25 84.51 144.50 300.84

टिप्पणी:- उपरोक्त सेबी (लिस्टिंग और अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 के विनियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दायर त्रैमासिक/वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक सारांश है। त्रैमासिक /वार्षिक वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइटों (www.bseindia.com) और कंपनी की वेबसाइट (www.kamaholdings.com) पर उपलब्ध है।

> बोर्ड और उसकी ओर से कार्तिक भरत राम

सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर सूचना में वर्णित राशि का प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

सांकेतिक कब्ज़े की सूचना शाखा कार्यालय: आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, तीसरी मंज़िल, प्लॉट नंबर- 23, **FICICI Bank** | न्यू रोहतक रोड, करोल बाग, दिल्ली- 110005

अधीहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदृत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित कर्जदारों को माँग सूचनाएँ निर्गमित की थीं, जिसमें उक्त

कर्जदार/सह–कर्जदार/जमानतदार राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल रहे हैं, अतएव एतद् द्वारा कर्जदार तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरदाता द्वारा सांकेतिक अधिग्रहण किया गया है जो कि उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत नियम 8 में दर्शाया गया है। संपत्ति तथा अधिग्रहण की तिथि नीचे दर्शाई गई है। एतद् द्वारा विशेष रूप से कर्ज़दार एवं जनसाधारण की संपत्ति के संव्यवहार नहीं करने के लिए सचेत किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी संव्यवहार इसमें वर्णित राशि तथा उस पर आगे ब्याज हेतु आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

क्र.		संपत्ति का विवरण/	डिमांड नोटिस की तिथि/	शाखा का
सं.	नाम/ ऋण खाता क्र.	सांकेतिक कब्ज़े की तिथि	डिमांड नोटिस में राशि (रु.)	नाम
		बियरिंग नगर पालिका संख्या-	अक्टूबर 05, 2023	नोएडा
		09–ए नई मंडी, मुजफ्फरनगर,	₹.	
	स्वाति गर्ग / 072151000005	उत्तर प्रदेश/ फरवरी 09, 2024	1,32,73,923.00/-	
		1. 1		

उपरोक्त दर्शाए गए कर्ज़दार/सह–कर्ज़दार एवं ज़मानतदारों को सूचित किया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन से 30 दिनों के अंदर राशि का भुगतान करें, अन्यथा 30 दिनों की समाप्ति के पश्चात् अधिग्रहित संपत्ति की नीलामी कर दी जाएगी जो पूर्णतः नियम 8 और 9 प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के अंतर्गत है।

दिनांक : फरवरी 14, 2024 स्थान : नोएडा आईसीआईसीआई बैंक लि.

स्थानः गुरूग्राम, हरियाणा

(मोनिशा सराफ)

डीआईएनः 07503642

KAMA Holdings

निदेशक

(डीआईएनः 00008557)

Manipur to 'deport' those who came after 1961: CM

decades. They have become

naturalised citizens. In case

®

in Demand Notice (Rs.)

July 31,2023

18,95,978.00/-

Branch

Delhi/

Authorized Officer ICICI Bank Limited

Date of Demand Name Notice/ Amount of

Authorized Officer

ICICI Bank Limited

31.03.2023

(34.3)

(278.4

Vikas Grov

DIN: 0707591

Noida

Notice/ Amount in Demand Notice (Rs.)

1,32,73,923.00/-

31.12.2022

day after Manipur Chief Minister N Biren Singh said those who entered and settled in the state after 1961 would be identified and deported, experts on Tuesday raised doubts over viability of the

They said the identification of illegal immigrants was a "welcome step" but their deportation would be difficult unless the foreign countries concerned recognise them as their bonafide citizens.

The northeastern state has been rocked by ethnic strife since May last year, and the government has accused a section of immigrants from neighbouring Myanmar of fomenting trouble.

Speaking at the launch of 'Project Buniyaad' on Monday, the chief minister said, "Those who entered and settled in the state after 1961, irrespective of castes and communities, would be identified and deported."

The chief minister's assertion comes after the Manipur cabinet had, in June 2022, approved a proposal to adopt

No. Loan Account Number

Pankaj Bahuguna/

Date: February 14, 2024 Place: Delhi/ NCR

the date of receipt of the said notice.

Date: February 14, 2024

Name of the

Borrower/ Loan Account Number Hardwari Lal Madan Gopal/ Ankit Garg/ Shikha Garg/ Pulkit Garg/ Amay Garg/

(Refer Notes below)

t Profit/(Loss) for the period before tax after exceptional item

t Profit/(Loss) for the period after tax

arning Per Share of Rs.10/- each (not annualised

Sunita Garg/ Swati Garg/ 072151000005

LBDEL00002049284

1961 as the base year for the state over several of deportation, there are legal determining the "native status" of residents of the state for effective implementation of the inner line permit.

"In order to deport illegal immigrants, the foreign country concerned must them as their accept bonafide citizens. If the foreign country does not recognise the immigrants as their citizens, how will they deported?" Pradip Phanjoubam, a political analyst, told PTI.

Naga leader and Forum for Restoration of Peace convenor Ashang Kashar said deportation cannot be done by the Manipur government

"Identification of immigrants is crucial. Those who would identified as illegal immigrants should not have the rights enjoyed by the original inhabitants. For instance, they should not have voting rights," Kashar told PTI. The decision to adopt 1961 as

the base year for ILP implementation is a "welcome step towards solving issues confronting the state". Phanjoubam said.

"But many of those are living in

SYMBOLIC POSSESSION NOTICE

The undersigned being the Authorized Officer of ICICI Bank Limited under the Securitisation, Reconstruction

of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of the powers conferred under section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) rules 2002, issued demand

notices upon the borrowers mentioned below, to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from

As the borrower failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken Symbolic possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/ her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules on the below-mentioned dates. The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of ICICI Bank Limited. Description of Property/ Date of Symbolic Possession

Unit No. H3-504, 5th Floor, Tower-H3, Eldeco Hillside, Nic (M), Neemrana, Plot No. Gh-12-238, Alwar- 301001/ February 12, 2024

the provisions under the Rules 8 and 9 of Security Interest (Enforcement) Rules 2002.

The above-mentioned borrowers(s)/ guarantors(s) are hereby given a 30 day notice to repay the amount, else the mortgaged properties will be sold on the expiry of 30 days from the date of publication of this Notice, as per

SYMBOLIC POSSESSION NOTICE

The undersigned being the Authorized Officer of ICICI Bank Limited under the Securitisation, Reconstruction

of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of the powers conferred under section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) rules 2002, issued demand

notices upon the borrowers mentioned below, to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from

As the borrower failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken Symbolic possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/ her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules on the

below-mentioned dates. The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of ICICI Bank Limited

The above-mentioned borrowers(s)/ guarantors(s) are hereby given a 30 day notice to repay the amount, else the mortgaged properties will be sold on the expiry of 30 days from the date of publication of this Notice, as per the provisions under the Rules 8 and 9 of Security Interest (Enforcement) Rules 2002.

Regd.Office : 14Kms, Gurgaon Pataudi Road, Jhund Sarai Veeran, Distt.Gurugram, Haryana CIN : L74999HR1979PLC032747, Website:www.rilftd.com, Email id: Investorrelations@riftd com, Phone: Statement of Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine Months Ended December.

RLF LIMITED

Branch Office: ICICI Bank Ltd, 3rd Floor, Plot No- 23, New Rohtak Road,

Description of Property/ **Date of Symbolic Possession**

Bearing Municipal No-09-A New Mandi Muzaffarnagar U

Pradesh/ February 09, ž024

Branch Office: ICICI Bank Ltd, 3rd Floor, Plot No- 23, New Rohtak Road,

Corrigendum

In the UFR ad of M/s. Superior Finlease Ltd. which published on 13.02.2024, where in point 8 under Particular should be read as "Earning per Share (of Re. 1/each)" instead of Earning per Share (of Re. 10/- each). Sorry for this inconvenience.

Rungta Irrigation Limited

Regd. Office: 101, Pragati Tower 26, Rajendra Place, New Delhi 110008
Tel: 011-40453330,31,32, E-mail: cs@rungtairrigation.in, Website: www.rungtairrigation.in

		CIN: L74899DL1986PLC023934							
Statement of Standalone Unau	ıdited Financ	ted Financial Results for the Quarter and Nine Months ended 3							
		(Rs. in Lakhs, Unless Oth							
	For t	he Quarter E	nded	For the Nine I	Months Ended	Year Ended			
Particulars	31.12.2023 Unaudited	30.09.2023 Unaudited	31.12.2022 Unaudited	31.12.2023 Unaudited	31.12.2022 Unaudited	31.03.2023 Audited			
Total income from operations	4200.79	3137.80	4344.05	9997.23	8659.85	13192.49			
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	200.84	136.37	198.12	601.76	263.85	400.91			
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	200.84	136.37	198.12	601.76	263.85	400.91			
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	150.27	102.55	148.26	450.87	197.38	298.32			
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	150.45	102.67	148.79	451.04	197.64	322.89			
Equity Share Capital	1992.35	1992.35	885.61	1992.35	885.61	1659.52			
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-	-	-	-			
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) - 1. Basic: 2. Diluted:	1.19 1.19	0.81 0.81	1.67 1.67	3.56 3.56	2.23 2.23	2.93 2.93			

implications that need to be

considered," he said.

The above is an extract of the detailed format of Quarterly and Half Yearly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full formats of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange website www.bseindia.com

Shruti Rungta Executive Director DIN:00229045

5.	Particulars	Quarter	Quarter	Quarter	Nine	Nine	Year
NO.		Ended	Ended	Ended	Months	Months	Ended
					Ended	Ended	
		31.12.2023	30.09.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.03.2023
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from operations (net)	73.46	87.99	17.73	189.44	63.45	101.51
2	Net Profit/(Loss) for the period						
	(Before Tax and after exceptional	40.49	60.36	(4.79)	103.31	(4.04)	12.07
	items)						
3	Net Profit/(Loss) for the period						
	after tax (after exceptional items)	31.98	47.31	(4.79)	81.20	(4.04)	26.34
4	Total comprehensive Income for						
	the period (comprising profit/(loss)	31.98	47.31	(4.79)	81.20	(4.04)	26.34
	for the period after tax and other						
	comprehensive income after tax						
5	Equity Share Capital	1680.03	1680.03	1440.03	1680.03	1440.03	1630.03
6	Earning per share (of Rs .10/- each)						
	(for the period -not annualised)						
	Basic	0.191*	0.282*	(0.033)*	0.484*	(0.028)*	0.162
	Diluted	0.191*	0.282*	(0.029)*	0.484*	(0.024)*	0.157

Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the

Saniai Seth Whole Time Director DIN: 00350518

ROTOGRAPHICS (INDIA) LIMITED CIN: L74899DL1976PLC008036

Regd. Office: Unit No 8, Ground Floor Pocket M, Sarita Vihar, New Delhi 110076 elephone: 011-47366600, E-mail: info@rotoindia.co.in, Website: www.rotoindia.co. EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 31ST DECEMBER, 2023

				, ,
Pa	articulars	Quarter	Year to date	Corresponding
		Ended	Figure	3 Months Ended
			Ended	in the previous
			Lilava	veal
		(34/42/2023)	(31/12/2023)	
/E	tefer Notes Below)		(Unaudited)	
'n				(Unaudited)
1.	Total Income from Operations	1.27	42.03	1.27
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax,			
	Exceptional and/or Extraordinary items*)	(1.55)	(2.72)	(1.46)
3.	Net Profit/(Loss) for the period before tax		` '	,
٠.	(after Exceptional and/or Extraordinary items*)	(1.55)	(2.72)	(1.46
_		(1.55)	(2.72)	(1.70
4.				
	(after Exceptional and/or Extraordinary items)	(1.55)	(2.72)	(1.46)
5.	Total Comprehensive Income for the period			
	[Comprising Profit/(Loss) for the period	(1.55)	(2.72)	(1.46)
	(after tax) and other Comprehensive		. ,	, ,
	income (after tax)]			
6.	Equity Share Capital	360.13	360.13	360.13
_	10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	300.10	300.10	300.10
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as			
	shown in the Audited Balance Sheet of the	0.00	0.00	0.00
	previous year.			
8.	Earning Per Share			
	(of Rs.10/- each) (for continuing and			
	discontinued operations)			
	1. Basic	-0.04	-0.08	-0.04
	2. Diluted	-0.04		-0.04
N.I	ntae'	-0.04	-0.00	-0.04

The above is an extract of the detailed format of Quarterly financial Results filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (LODR) Regultions 2015.The full format of Quarterly Financial Results are available on the stock exchange website www.bseindia.com and Company's Website at water retigning on the stock exchange website www.bseindia.com and Company's Website at www.rotoindia.co.in.

The financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standard (IND AS) notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended by the Companies (Indian Accounting Standards) (Amendments) Rules, 2016.

The above unaudited Financial Results were reviewed by the Audit Committee and approved by the board of Directors at their meeting held on 12.02.2024.

For Rotographics (India) Limited

Name : Manish Kumar Kori Designation : Director DIN : 10426839

WITHDRAWAL OF PUBLICATION OF APPENDIX IV-A DATED 08.02.2024 ISSUED UNDER RULE 8(6) READ WITH RULE 9(1) AND PROVISO THERETO, UNDER THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 ('The Act').

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s), that Appendix IV-A Dated 08.02.2024 published by the undersigned in THE PIONEER - NEW DELHI - ENGLISH and RASHTRIYA SAHARA - NEW DELHI - HINDI, both dated 12.02.2024, in respect of the sale of the Mortgaged Property being MUNICIPAL NO. XVI/936 (NEW) BUILT UP ENTIRE FIRST FLOOR, ENTIRE SECOND FLOOR, ENTIRE THIRD FLOOR WITH ITS TERRACE/ROOF RIGHTS AND ABOVE UPTO SKY, ALONG WITH PROPORTIONATE UNDIVIDED SHARE IN THE LAND, COMPRISED IN KHASRA NO. 2244/1215/1140. GALI No. -2. BLOCK - QQ. SITUATED AT NAIWALA, KAROL BAGH, NEW DELHI - 110006, stands withdrawn diate effect, without prejudice to the rights of the undersigned.

Authorized officer Indiabulls Housing Finance Limited Place : NEW DELHI

This is to inform the general public that M/s Raj industries through its prop. Mr. Ajeet Kumar Singh is the sole owner of Property bearing no. 40, area measuring 208.0 sq. mtrs., situated in Block B of Sector 8, NOIDA, Distt. Gautam Budh Nagar NOIDA. This ownership was legally acquired through a Transfer Cum Sale Deed dated 07.04.2021 vide doc no. 1956, executed by M/s SS Engineering works.

acquired infough a Transfer Cum Sale Deed dated 07.04.201 vide doc no. 1956, executed by Mis SS Engineering works.

The above said owners have misplaced the Original Transfer cum Sale Deed dated 12-02-2007 No. 722 executed by Mr. Dev Raj Pahuja Jior Toxoc. No. 722 executed by Mr. Dev Raj Pahuja Indovor of Mis Alok Udyog. Anyone who finds the above-mentioned documents, kindly handover the same to the Manager of HDFC Bank Ltd. Moti Nagar. Mis Raj Industries through its prop. Mr. Ajeet Kumar Singh is currently in the process of mortgaging the aforementioned property with HDFC Bank Ltd. Any objections or concerns regarding this transaction should be raised within a period of 7 days from the date of this public notice. Any objections submitted after the completion of this 7-day period will not be considered binding with respect to the said property or the interests of our client. If anyone wishes to raise an objection, please do so within the stipulated 7-day period by contacting Law Veritas: North (Advocates & Legal Consultants) at Office No. 11, 1st Floor, Building No. A44/A, Sector-16, Nolda, Uttar Pradesh-213111: and Indians (3): 43110-3.311683,4552804-213111: and No. A-44/A, Sector-16, Noida, Uttar Pradesi 201301; Landline(s): +910120-3101683 /4562809 e-mail: accounts@lvnorth.in

(17.00 Hr)

C-3076

of waste water of WTP including all

ancillary structure

Rayagada

SI

GOVERNMENT OF ODISHA OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER. **PUBLIC HEALTH DIVISION, RAYAGADA.** e-mail:- eephd.rgda.od@nic.in, eephdrgda@gmail.com

NATIONAL COMPETITIVE BIDDING THROUGH e-Procurement (IEB) NO FERHIDRAYAGADA-61 /2023-24 DT.06.02.2024

	Name of the work	Bid identification No.	Estima ted Cost	Class of Contractor	Period of Comple	Availabil Document	
		12	(Rs. In Lakh)		tion	From	То
	Provision for Recycle and Reuse of waste water of	EEPHDRAYAGAD DA-61/2023-24	153.97/	('A' and 'B')	04 (Four	21.02.2024	06.03.202

Name & Address of Officer Inviting Bid : Executive Engineer P.H. Division, Rayagada

Email: eephd.rgda.od@nic.in, eephdrgda@gmail.com

nths) (11.00 Hr)

Further details can be seen from the e-Procurement portal "https://www.tendersorissa.gov.in".

All amendments, time extension, clarifications etc. will be uploaded in the website only

Bidders should regularly visit the above website to keep themselves updated.

OIPR-13052/11/0023/2324 P.H. Division, Rayagada

GOVERNMENT OF ODISHA OFFICE OF THE CHIEF CONSTRUCTION ENGINEER RURAL WORKS CIRCLE: SUNDARGARH

AT/PO-SANKARA, SUNDARGARH-770020, E-mail address-serw_sundargarh@yahoo.com

No. Tender Online - RWCCESNG - 54 of 2023-24, Letter No 445 /Dtd. 12.02.2024 e-Procurement NOTICE

1. Type of the Work: Road (MMSY-TRIP) 2. Class of Contractor: As specified in the column-6 of the Annexure

3. Time of Completion: As specified in the column-5 of the Annexure

4. Detail Projects: As per Annexure attached 5. Estimated Cost As specified in the column-4 of the Annexure

Procurement Officer	Bid Identification			dentification on-line fo		Last Date & Time of		e of opening nder
	No.	From	То	Seeking Tender Clarification	Technical Bid	Financial Bid		
1	2	3	4	5	6	7		
Chief Construction Engineer, Rural Works Circle, Sundargarh	RWCCESNG- 54 of 2023-24	16.02.2024 11:00 AM	02.03.2024 5:00 PM	01.03.2024 5:00 PM	04.03.2024 11:00 AM	Will be intimated separately		

Further details can be seen from the website www.tendersodisha.gov.in OIPR-25133/11/0075/2324

Chief Construction Engineer I/C Rural Works Circle, Sundargarh

Emaar India Limited

CIN - U4520IDL2005PLC13361

Registered Office: 306-308, Square One, C-2, District Centre, Saket, New Delhi - 110017 Email ID - bharat.garg@emaar.ae, Website- www.in.emaar.com

UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE PERIOD ENDED DECEMBER 31, 2023 (Rs. in million

		C	Quarter ende	d	Nine mont	hs ended	Year ended
s.		December	September	December	December	December	March
No.	Particulars	31, 2023	30, 2023	31, 2022	31, 2023	31, 2022	31, 2023
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations	9,112.95	5,716.65	6,814.99	25,102.27	13,297.05	17,657.62
2	Net Profit / (Loss) for the period						
	(before Tax, Exceptional and /or Extraordinary Items)	2,163.34	(1,553.37)	1,370.99	1,294.97	(576.16)	97.07
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax						
	(after Exceptional and /or Extraordinary Items)	2,163.34	(1,553.37)	87.14	1,294.97	(1,860.01)	(1,186.78)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax						
	(after Exceptional and / or Extraordinary Items)	2,163.34	(1,553.37)	87.14	1,294.97	(1,860.01)	(1,186.78)
5	Total Comprehensive Income for the period						
	(Comprising profit / (Loss) for the period (after tax) and						
	other Comprehensive Income (after tax)	2,168.75	(1,557.75)	93.63	1,303.80	(1,853.15)	(1,178.98)
6	Paid-up equity share capital (Face value of Rs. 10 each)	1,693.87	1,693.87	1,693.87	1,693.87	1,693.87	1,693.87
7	Other equity (Reserves excluding revaluation reserves)	(36,264.53)	(38,437.69)	(38,242.51)	(36,264.53)	(38,242.51)	(37,568.33)
8	Security Premium Account	-	-	-	-	-	-
9	Net worth	(34,570.66)	(36,743.82)	(35,810.51)	(34,570.66)	(35,810.51)	(35,136.33)
10	Paid up debt capital / Outstanding debt	78,124.21	77,590.33	78,831.95	78,124.21	78,831.95	78,485.34
11	Outstanding Redeemable Preference Shares	-	-				-
12	Debt / Equity Ratio	(2.31)	(2.15)	(2.05)	(2.31)	(2.05)	(2.06)
13	Earnings per share (EPS) (Face value of Rs. 10/- each)						
	1. Basic	12.77	(9.17)	0.51	7.65	(11.50)	(7.01)
	2. Diluted	12.77	(9.17)	0.51	7.65	(11.50)	(7.01)
14	Capital Redemption Reserve	-	-	-	-	-	-
15	Debenture Redemption reserve	738.13	738.13	738.13	738.13	738.13	738.13
16	Debt Service Coverage Ratio	0.37	0.03	0.29	0.37	0.08	0.12
17	Interest Service Coverage Ratio	2.42	0.09	1.07	1.28	0.64	0.83

The above is an extract of the detailed format of financial results filed with stock exchange under regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulation, 2015. The full formats of financial results are available on the website of the stock exchange www.bseindia.com and on the Company's website www.in.emaar.com

For the other line items referred in regulation 52 (4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Regulrements) Regulation, 2015, pertiner disclosures have been made to the Stock Exchange and can be accessed on the website of stock exchange www.bseindia.com.

The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their meeting held on February 12, 2024. For and on behalf of Board of Directors of

Emaar India Limited Sd/-

Jamal Majed Khalfan Bin Theniyah DIN - 07534810

KAMA HOLDINGS LIMITED

CIN: L92199DL2000PLC104779

Registered Office: The Galleria, DLF Mayur Vihar, Unit No. 236 & 237, 2nd Floor, Mayur Place, Noida Link Road, Mayur Vihar Phase I Extn, Delhi - 110091

Corporate Office: Block C, Sector 45, Gurgaon-122003, Tel. No : (+91-11) 49482870 • Fax : (+91-11) 49482900 Email: info@kamaholdings.com; website: www.kamaholdings.com

UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER 2023

Place: Gurugram Date : February 12, 2024

(Rs. in Lakhs)

KAMA Holding

		STANDALONE				CONSOLIDATED			
٠.		QUARTER ENDED NINE MONTHS ENDED			QUARTER ENDED NINE N			MONTHS ENDED	
SI. No.	Particulars	31-Dec-23	31-Dec-22	31-Dec-23	31-Dec-22	31-Dec-23	31-Dec-22	31-Dec-23	31-Dec-22
140.			Unau	ıdited			Unau	ıdited	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Total Income from Operations	849.42	6.97	6237.32	20035.89	307583.45	350322.71	964460.92	1130647.08
2	Net Profit / (Loss) for the period before tax	709.61	(29.01)	6056.65	19962.28	35356.76	64802.67	126494.83	226065.67
3	Net Profit / (Loss) for the period after tax	530.89	(20.57)	5852.94	19523.30	25464.38	52447.74	91603.99	175865.86
4	Total Comprehensive Income for the period	530.87	(20.49)	5852.39	19523.06	35729.00	63252.45	106068.99	154715.07
	[Comprising Profit / (Loss) for the period (after								
	tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]								
5	Paid up Equity Share Capital	3209.06	645.26	3209.06	645.26	3209.06	645.26	3209.06	645.26
6	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)								
	(a) Basic :	1.65	(0.06)	18.24	60.77	40.25	84.51	144.50	300.84
	(b) Diluted:	1.65	(0.06)	18.24	60.77	40.25	84.51	144.50	300.84

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financials Results are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com) and the Company's website (www.kamaholdings.com).

For and on behalf of the Board Kartik Bharat Ram

Chairman

(DIN: 00008557)

: Gurugram, Haryana : 13th February, 2024

Dated : 13th February, 2024 **GAZETTE PUBLICATION** n the Court of the Principal Judge, Family Court at Seraikella O.S. (Matrimonial) Suit No. 78 / 2022

Gyan Prakash Petitione Vrs Mrs. Sarita Sahni Responden To,

Mrs. Sarita Sahni, W/o Mr. Gyan Prakash and Daughter of Mr. Ram Bilas Sahni, Resident of at B-312, Mathur House, Lal Bag, Azadpur, New Delhi P.I.N. 110033. Whereas the petitioner Gyan Prakash

against you Under Section 9 of the Hindu Marriage Act for restitution of Conjugat Rights. In spite of notices served through registered post as well as Nazarat you did not appear in court. You are hereby summoned to appear before the court in this case personally or through your lawyer duly instructed to answer the question raised by the petitioner and to file Written Statement on that day of your appearance. The date is fixed for your appearance on this the 4th day of March 2024 at 10:30 A.M. If no appearance made on the date fixed, the matter will be heard and necessary order will be passed in your absence.

Given under my hand and seal of this court this the 5th day of February 2024. Sd/- Principal Judge, Family Court at Seraikella

M/s FORTEASIA REALTY PVT. LTD. Regd. Office: J-221, Sarita Vihar, New Delhi-110076

31.12.2023

(12.8

PUBLIC NOTICE

Whereas, M/s Forteasia Realty Pvt. Ltd. is in process of undertaking of development of an Affordable Plotted Colony in sector 22D, Rohtak, Haryana over an area measuring 8.5875 acres in revenue estate of Village- Sunari Khurd & Maina, accordance of license no. 217 of 2022 dated 29.12.2022 granted by Director, Town & Country Planning, Haryana, Chandigarh.

proposed to be revised. And whereas, the office of Director, Town & Country Planning, Haryana, Chandigarh has required seeking of objection against the revision of 8.5875 acres Layout-cum-Demarcation Plan as a pre-condition for allowing such proposed and revision in the Layout-cum-Demarcation Plan.

from any of the allottees in the said colony on the proposed and revision of the Layout-cum-Demarcation Plan of the said colony. A copy of the proposed and revised Layout-cum- Demarcation Plan bearing approval provisional Drg. No. 8893 dated 02-01-2023 and Drg. No. 9650 dated 04-10-2023 is available for perusal on our website i.e www.forteasia.in. The said Layout-cum- Demarcation Plan can also be perused at the office of undersigned as well as in the office of Senior

Town Planner, Rohtak. Any allottee having any objection on the revision of proposed Layout-cum- Demarcation Plan in favour of M/s Forteasia Realty Pvt Ltd., may file his objection in the office of Senior Town Planner, Rohtak within 30 days of the publication of this notice, failing which it shall be

Project Head Place: New Delhi Date: 14.02.2024

And whereas, the earlier approved Layout Plans are now

Accordingly, vide this public notice objections are hereby invited

assumed that there are no objections to the proposed Layout-cum Demarcation Plan.

M/s Forteasia Realty Pvt. Ltd.

MY MONEY SECURITIES LTD.

CIN: L67120DL1992PLC047890

Regd Office: 10-A, UNDERHILL LANE, CIVIL LINES, DELHI-54
: 011-23937870, 23930655. EMAIL ID: mymoneyviews@outlook.com
Extract of the Standalone Unauditied Financial Results for the
Quarter and nine months ended 31st December, 2023 (Rs. In Lakhs)

φ.	r ai iivulai s	Quanter	Wagite	Qualite	I MIND	I MIC	I COI
NO.		Ended	Ended	Ended	Months	Months	Ended
					Ended	Ended	
		31.12.2023	30.09.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.03.2023
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from operations (net)	73.46	87.99	17.73	189.44	63.45	101.51
2	Net Profit/(Loss) for the period						
	(Before Tax and after exceptional	40.49	60.36	(4.79)	103.31	(4.04)	12.07
	items)						
3	Net Profit/(Loss) for the period						
	after tax (after exceptional items)	31.98	47.31	(4.79)	81.20	(4.04)	26.34
4	Total comprehensive Income for						
	the period (comprising profit/(loss)	31.98	47.31	(4.79)	81.20	(4.04)	26.34
	for the period after tax and other						
	comprehensive income after tax						
5	Equity Share Capital	1680.03	1680.03	1440.03	1680.03	1440.03	1630.03
6	Earning per share (of Rs .10/- each)						
	(for the period -not annualised)						
	Basic	0.191*	0.282*	(0.033)*	0.484*	(0.028)*	0.162
	Diluted	0.191*	0.282*	(0.029)*	0.484*	(0.024)*	0.157
No	te:						

The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchange websites. (www.bseindia.com) and company website www.mymoneyo For and on behalf of the Board of Director

Dated: 13/02/2024